



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30—अप्रैल 5, 2013 (चैत्र 9, 1935)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30—APRIL 5, 2013 (CHAITRA 9, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2013

सं. आरएस/3/1(1)/2013/19-कार्मिक--श्री दिनेश सिंह, जिन्हें पहले दिनांक 20 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. आरएस.3/1(1)/2012/20-कार्मिक, द्वारा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 6 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 मार्च 2013

सं. 4(1)-पीयू/2012--श्री तारिक अनवर, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और उनके स्थान पर डॉ. जनार्दन वाघमरे, सदस्य, राज्य सभा को 11 मार्च, 2013 से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2012-2013) के

शेष कार्यकाल के लिए समिति में कार्य करने हेतु निर्वाचित किया गया है।

पी. सी. कौल, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2013

सं. ए-12025/27/2012-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, डॉ. अलबेल कच्छप, नियमित उपसलाहकार (सामाजिक योजना) को योजना आयोग में पीबी-4, रु. 37,400--67,000/- + 8,700/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र/प्रबन्धन) के पद पर तदर्थ नियुक्ति दिनांक 01.03.2013 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष तक अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अगले आदेशों तक के लिए अथवा इनमें से जो भी पहले हो, करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारी को संयुक्त सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता और न ही संयुक्त सलाहकार के पद पर उनकी

इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को संयुक्त सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. ए-12025/27/2012-प्रशासन-1--भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से वापसी के परिणामस्वरूप डॉ. अलबेल कच्छप को योजना आयोग में अपने मूल पद उपसलाहकार (सामाजिक योजना) के पद पर पीबी-3, रुपये 15,600--39,100/- + 7,600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में दिनांक 01.01.2013 से कार्यभार संभाल लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 मार्च 2013

सं. ए-31018/1/2009-प्रशासन.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2011-सी.एस.1 (यू) द्वारा वर्ष 2009 और 2010 के लिए सूचित केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I की चयन सूची में अधिकारियों को सम्मिलित किए जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों को सीएसएस (अवर सचिव) के ग्रेड-I पद पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	सीएसएस सं.	सीएसएस वर्ष
1.	श्री पी. पी. साहा, अवर सचिव	6323	2009
2.	सुश्री शकुन परदासानी, अवर सचिव	6397	2009
3.	श्री डी. के. शर्मा, अवर सचिव	6534	2010
4.	श्री सुंदर सिंह, अवर सचिव	6806	2010
5.	श्री चंद्र मोहन नेगी, अवर सचिव	6807	2010

के. आर. शर्मा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2013

सं. ए-32014/5/2010-प्रशा.-IV (वि.का.) खण्ड-II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों (तदर्थ निजी सचिव के तौर पर कार्यरत) को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के तहत जोनिंग स्कीम के अधीन केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव की वर्ष

2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीख से इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-2, रु.9,300--34,800/- में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	सीएसएस सं.	वर्तमान में किस संवर्ग में कार्यरत हैं	इस विभाग में कार्यग्रहण करने की तारीख
1.	श्री बी. एम. एम. दास	238	सूचना और प्रसारण (प्रसार भारती)	18.1.2013
2.	श्री पी. आर. रामनाथन	605	वाणिज्य	23.01.2013 (अपराह)

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2013

सं. ए-45012/1/2012-प्रशा.III(वि.का.)(i)--केंद्रीय सरकार, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. एन. कपूर को दिनांक 15 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक अर्थात् भारत के 20वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, भारत के 20वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-45012/1/2012-प्रशा.III(वि.का.)(ii)--केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों को, उनके कार्यभार संभालने की तारीख से दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक अर्थात् भारत के 20वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, भारत के 20वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है:-

पूर्णकालिक सदस्य :

1. प्रो. (डॉ.) मूलचंद शर्मा, कुलपति, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।

अंशकालिक सदस्य :

1. प्रो. (डॉ.) योगेश त्यागी, डीन व प्रोफेसर (विधि), दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
2. श्री आर. वेंकटरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय।

डी. चौधरी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2013

सं. I-18011/02/2013-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री शेमुशी, भा.पु.से. (आन्ध्र प्रदेश : 2008) को दिनांक 01.09.2012 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

अरविन्द गौड़, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2013

सं. आई-14011/04/2012-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 25.02.2013 को चयन समिति की दिनांक 17.12.2012 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2010 और 2011 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग में 10 एवं 2 कुल 12 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	एस. एस. शोरी	10.02.1959
2.	टी. आर. पैकरा	23.03.1961
3.	डी. एल. मनहर	25.05.1959
4.	आर. एस. नायक	25.04.1960
5.	जी. एस. दर्ी	24.05.1960
6.	नरेन्द्र खरे	01.08.1956
7.	एस. सी. द्विवेदी	13.04.1965
8.	जे. एस. वट्टी	22.01.1958
9.	ए. आर. कोराम	23.01.1960
10.	आर. पी. साई	07.10.1963

चयन सूची-2011

1.	संजीव शुक्ला	08.01.1967
2.	हेतराम मनहर	09.02.1961

2. उपर्युक्त चयन सूचियाँ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा दायर रिट याचिका सं. 2133/2004 के परिणाम के अध्याधीन होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/04/2012-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	एस. एस. शोरी	10.02.1959
2.	टी. आर. पैकरा	23.03.1961
3.	डी. एल. मनहर	25.05.1959
4.	आर. एस. नायक	25.04.1960
5.	जी. एस. दर्ी	24.05.1960
6.	नरेन्द्र खरे	01.08.1956
7.	एस. सी. द्विवेदी	13.04.1965
8.	जे. एस. वट्टी	22.01.1958
9.	ए. आर. कोराम	23.01.1960
10.	आर. पी. साई	07.10.1963

चयन सूची-2011

1.	संजीव शुक्ला	08.01.1967
2.	हेतराम मनहर	09.02.1961

2. उपर्युक्त चयन सूचियों की सिफारिश श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा फाईल रिट याचिका सं. 2133/2004 जो माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लम्बित है, के निपटान के परिणाम के अध्याधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. 12/94/2012-स्था.--उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यरत सीएसएस के अवर सचिव श्री देबाशीष डे (सीएल सं. 6792) का नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का. ज्ञा. सं. 5/11/2011-सीएस.1 (यू) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति के लिए वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति जी उन्हें दिनांक 01 जुलाई, 2010 से नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति को अनुमोदित सेवा के प्रयोजन के लिए 01 जुलाई, 2010 से प्रभावी माना जाएगा।

3. यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश के अनुसार "पी. एस. भंडारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" नामक ओ.ए.सं. 611/2012 में अंतिम निष्कर्ष और ऐसे किसी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अधधीन होगी।

रोहताश सिंह, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. 12/94/2012-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का. ज्ञा. सं. 5/11/2011-सीएस.1 (यू) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति के लिए वर्ष 2009 की चयन सूची में शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति जी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यरत सीएसएस के निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों को दिनांक 01 जुलाई, 2009 से सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	सीएसएल सं.
1.	श्री बिमल कुमार	6138
2.	श्री डी. बंदोपाध्याय	6317

2. उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति को अनुमोदित सेवा के प्रयोजन के लिए 01 जुलाई, 2009 से प्रभावी माना जाएगा।

3. यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश के अनुसार "पी. एस. भंडारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" नामक ओ.ए.सं. 611/2012 में अंतिम निष्कर्ष और ऐसे किसी संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अधधीन होगी।

देबाशीष डे, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2013

सं. 14015/15/2012-अ.भा.से. (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग (मणिपुर खण्ड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 26.10.2012 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के तहत 17.01.2013 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों से युक्त मणिपुर के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं:-

2011 की प्रवर सूची (01.01.2011 से 31.12.2011 के बीच उद्भूत रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	श्रीमती खोलिया लोरहो (अजजा)	22.05.1960
2.	एच. रूपा चन्द्र सिंह (अजा)	31.12.1959
3.	निगम चामरॉय (अजजा)	22.02.1958
4.	एल. नाबा किशवर सिंह	01.02.1958

2. उक्त नियुक्तियां माननीय गुवाहटी उच्च न्यायालय के समक्ष श्री एम. लक्ष्मी कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा दायर सिविल नियम संख्या 201/1997 की रिट याचिका सं. 494/2002 के परिणाम के अधीन है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/15/2012-अ.भा.से. (I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए मणिपुर राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग

नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत संयुक्त मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग आर्बिट्र कर रहे हैं:-

2011 की प्रवर सूची (01.01.2011 से 31.12.2011 के बीच उद्भूत रिक्तियों के लिए)

क्र. सं. नाम

(सर्वश्री)

1. श्रीमती खोलिया लोरहो (अजजा)
2. एच. रूपा चन्द्र सिंह (अजा)
3. निगम चामरॉय (अजजा)
4. एल. नाबा किशवर सिंह

2. उक्त नियुक्तियां माननीय गुवाहटी उच्च न्यायालय के समक्ष श्री एम. लक्ष्मी कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा दायर सिविल नियम संख्या 201/1997 की रिट याचिका सं. 494/2002 के परिणाम के अधीन है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. ए-32013/02/2013-प्रशा.-I--इस विभाग के दिनांक 29 जनवरी, 2013 के आदेश सं. 4/2/2013-के.से.-सीएस.-1 (घ) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के चक्राक्रम (रोटेशनल) स्थानांतरण नीति के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से इस विभाग में स्थानांतरण किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, सुश्री गायत्री मिश्रा को दिनांक 01 मार्च 2013 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, वेतन बैंड पीबी-4 (रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/-) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जयंती श्रीराम, अवर सचिव

दिनांक 15 मार्च 2013

सं. ए-32013/01/2013-प्रशा.-I--ईओ प्रभाग के दिनांक 01 मार्च, 2013 के आदेश सं. 6/13/2013-ईओ (एसएम-1) के तहत मंत्रीमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अपर सचिव के रूप में चयन किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री जय प्रिय प्रकाश को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड एचएजी + रु. 67,000--79,000/- में 11 मार्च 2013 के पूर्वाह्न से अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जयंती श्रीराम, अवर सचिव

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. 11013/04/2012-प्रशा.-I (भाग-I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 फरवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2013-ईओ

(एसएम.-1) के अनुसरण में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में संयुक्त सचिव (एआरसी), श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने 20.02.2013 (अपराह्न) से पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग में नव सृजित संयुक्त सचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया है।

डी. के. सोलंकी, अवर सचिव

दिनांक 6 मार्च 2013

सं. 19011/02/2013-प्रशा.-I--राजभाषा विभाग के दिनांक 28 जनवरी 2013 के कार्यालय आदेश सं. 5/3/2012-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.02.2013 के अपने कार्यालय आदेश सं. 1/2/2012-प्रशा.-III (के.वि.प्रा.) के तहत सुश्री पुष्पलता कुमारी को कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् उन्होंने 01 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

डी. के. सोलंकी, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. क्यू/पीएफ/578/11/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारी श्री विलायती राम गोयल, उप निदेशक (राजभाषा) 31 जनवरी 2013 के अपराह्न को विदेश मंत्रालय से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अनूप ढोंगरा, अवर सचिव

कार्यालय उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2013

सं. डी-III/460/सीएफ-14/2008--भारत के राष्ट्रपति बेंगलुरु में पोलैंड गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री अभिषेक पोद्दार को नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री अभिषेक पोद्दार के कौंसली क्षेत्राधिकार में कर्नाटक राज्य होगा, जिसका केन्द्र बेंगलुरु होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2013

सं. ए-12011/11/2012-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के नियमित निजी सचिव, श्री आर. त्यागराजन को 15,600--39,100/- + 7,600/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-3 में 31 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से वित्त मंत्री के सलाहकार के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री आर. त्यागराजन की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाहकार के कार्यकाल के साथ अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सह-समाप्य/प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2013

सं. ए-22011/01/2013-प्रशा.-I ए-राष्ट्रपति, श्री सुधीर श्याम (आईईएस : 99) को 01.03.2013 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईप्सिता मित्रा, अवर सचिव

दिनांक 15 मार्च 2013

सं. ए-22011/01/2013-प्रशा.-I ए-राष्ट्रपति, श्री सान्तनु मित्रा (आईईएस : 99) को 25.02.2013 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईप्सिता मित्रा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. 7/6/2012-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री वी. एन. लोथे पाटील को दिनांक 20.02.2013 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-III, मुम्बई के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. 2013 [फा.सं. 2/21/2011-जेई (पार्ट)]-राष्ट्रपति, श्री अरिजित बैनर्जी, आईएफएस (आरजे : 91) को 8 मार्च, 2013 के अपराह्न से 17.02.2015 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता, के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुमिन्दर कौर, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. 38011/05/2012-एचआर-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप श्रीमती कान्ता अरोड़ा, उप निदेशक (लेखा) 28.02.2013 से भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गईं।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. पृविमं./11/08/2008-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.02.2013 के का.ज्ञा. सं. 1/3/2007-ईओ(एमएम-1) के द्वारा सूचित किए अनुसार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि के तीन माह का विस्तार किए जाने के परिणामस्वरूप डॉ. वसुधा गुप्ता, आईआईएस (89), निदेशक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि 25.02.2013 से आगे तीन माह की अवधि के लिए तथा 25.05.2013 तक बढ़ाई जाती है।

कैलाश चन्द, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. ए. 20012/16/1990-पी-II--पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्रीमती श्रद्धा शर्मा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप दिनांक 28 फरवरी, 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 4 मार्च 2013

सं. ए.12012/5/2004-पी.II(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.02.2013 के कार्यालय आदेश सं. 21/3/2013-सीएस.I (डी) के द्वारा संप्रेषित केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत संयुक्त सचिव या समकक्ष पद धारित करने के लिए नामिकायन करने हेतु मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक, श्री चंदन सिंह को दिनांक 01 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से एसएजी ग्रेड [अर्थात् 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित पीबी-4 (37,400--67,000/- रु.)] में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

सं. ए.12012/5/2004-पी.II(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.02.2013 के कार्यालय आदेश सं. 21/3/2013-सीएस.I (डी) के तहत केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत संयुक्त सचिव या समकक्ष पद धारित करने के लिए नामिकायन होने के फलस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक, श्री विजय कुमार को दिनांक 27 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से एसएजी ग्रेड [अर्थात् 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित पीबी-4 (37,400--67,000/- रु.)] में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (स्वास्थाने) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. के. राय, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 मार्च 2013

सं. ए. 12025/167/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. महेश मधुकरराव चौधरी को दिनांक 21 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- +5,400/- रु. ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. महेश मधुकरराव चौधरी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मंबई के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 19 मार्च 2013

सं. ए. 12025/275/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शिल्पी श्रद्धा मिंज को दिनांक 13.04.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/-+5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. शिल्पी श्रद्धा मिंज को सीजीएचएस, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. शिल्पी श्रद्धा मिंज अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए. 12025/8/2009-सीएचएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. मेघा जैन को 05.09.2012 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/-+5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. मेघा जैन को सीजीएचएस, दिल्ली के तहत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. मेघा जैन अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2013

सं. ए. 19014/13/2005 स्था. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.01.2013 के आदेश सं. 4/02/2013-सीएस.I(डी) के तहत, सीएसएस के सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप सीएसएस की ग्रेड-I (अवर सचिव) श्रीमती वाल्सम्मा के, डेनियल की नियुक्ति दिनांक 25.02.2013 के पूर्वाह्न से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सीएसएस के सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) में की जाती है।

2. श्रीमती वाल्सम्मा के. डेनियल की तदर्थ नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 29.01.2013 के आदेश के बिन्दु 2 में निर्धारित विभिन्न अदालती मामलों/नियमों और शर्तों पर आधारित है, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2013

सं. ए. 25011/156/07-एचआर-(पार्ट फाइल)--भारत सरकार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/03/2013-ई ओ (एम.एम.-II) दिनांक 13.02.2013 के अनुसरण में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. वी.एम. कटोच की नियुक्ति को 28 फरवरी, 2013, जोकि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है, से आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है।

एस. के. राव, संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2012

सं. ए-19011/12/2012-स्थापना--संस्कृति मंत्रालय में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधेलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) में 31.05.2013 तक या जब तक नियमित आधार पर ये पद भरे नहीं जाते हैं, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले लागू होता हो, तदर्थ आधार पर प्रोन्नत किए जाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी एस-I (यू) के माध्यम से इनकी तैनाती संस्कृति मंत्रालय में किए जाने के परिणामस्वरूप, ये अधिकारी 30 अक्टूबर, 2012 की पूर्वाह्न से सीएसएस संवर्ग के अवर सचिवों के रूप में संस्कृति मंत्रालय में नियुक्त किए गए हैं :-

1. श्री ओ.पी. छिल्लर

2. श्री आर.पी. बहुगुणा

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर 2012

सं. ए-19011/14/2012-स्थापना--श्री गुरुबिन्दर सिंह गुलेरिया, सुरक्षा अधिकारी, राज्यसभा सचिवालय ने संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कटोच) के निजी कर्मचारियों में अपर निजी सचिव का, स्वीकार्य प्रतिनियुक्ति भर्ती सहित पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 5,400/- रु. में सह-टर्मिनस आधार पर 20 नवम्बर, 2012 की पूर्वाह्न से कार्यभार संभाल लिया है।

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. पीएफ-635/प्रशासन-I--श्री जयंत कुमार रॉय, सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 28 फरवरी, 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

नेहा सिंह, अवर सचिव

सं. पीएफ-604/प्रशासन-I--श्रीमती श्यामा कुट्टी, उप सचिव, दूरसंचार विभाग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 28 फरवरी, 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

नेहा सिंह, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. पीएफ-566/प्रशासन-I--श्री एल.एन. आंचल, निदेशक, दूरसंचार विभाग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 28 फरवरी, 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

नेहा सिंह, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 मार्च 2013

सं. 6120/एनआईसी/2013-प्रशा. II--महानिदेशक, रासूवि केन्द्र एतद्वारा श्री आकाश शारदा, (कर्मचारी कोड सं. 6120) का रासूवि केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली, में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड 'एस. बी.' के पद से त्यागपत्र दिनांक 04.03.2013 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

दिनांक 11 मार्च 2013

सं. 4941/एनआईसी/2012-प्रशा. II--महानिदेशक, रासूवि केन्द्र एतद्वारा श्री सूरज देव शर्मा, (कर्मचारी कोड सं. 4941) का रासूवि केन्द्र, फतेहगढ़ साहेब, पंजाब में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड 'एस. बी.'/राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी के पद से त्यागपत्र दिनांक 02.04.2001 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2013

सं. ईआरबी-1/2008/2/2011--श्री संतोष सिन्हा, एसजी/आईआरएसएमई, निदेशक, यांत्रिक इंजीनियरी (कारखाना), रेलवे बोर्ड को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उनकी पदोन्नति होने पर 28.02.2013 के अपराह्न से कार्यपालक निदेशक, यांत्रिक इंजीनियरी (उत्पादन इकाईयां), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2013

सं. 2006/ई(जीआर)/I/6/1--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित प्रोबेशनरों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1.	रतनेश कुमार द्विवेदी (अनंतिम)	18.12.2006
2.	शशिकान्त द्विवेदी (अनंतिम)	11.12.2006
3.	गोपाल सिंह	14.12.2006
4.	बी. श्रीनिवास राव	11.12.2006
5.	सुगिंद सुरेन्द्रन (अनंतिम)	11.12.2006
6.	जयंत चक्रवर्ती	11.12.2006
7.	सुभ्रा संखा मुखर्जी	11.12.2006
8.	संतोष कुमार	11.12.2006
9.	स्वदेश राय	11.12.2006
10.	साकेत चन्द श्रीवास्तव	11.12.2006
11.	अवधेश कुमार	11.12.2006
12.	नितिन वर्मा	11.12.2006
13.	पोसू बाबू अली	11.12.2006
14.	संतोष कुमार राजुला	11.12.2006
15.	अरुण कुमार पंवार	11.12.2006
16.	दीपक कुमार गुप्ता	11.12.2006
17.	अयन्दलावर संजीवा राव	11.12.2006
18.	ज्योति भास्कर	15.12.2006
19.	रजनीश कुमार सिंह	11.12.2006
20.	राजपाल मीणा	20.12.2006

ममता कंडवाल, संयुक्त निदेशक स्थापना (जीआर)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. 3/2013-मि.सं.ए-35018/1/2012-प्रशा. एक--राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 70 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नीरजा माथुर, मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को, 67,000--79,000/- रु. के वेतन श्रेणी

में भारत सरकार में अपर सचिव के पदेन स्तर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 01.03.2013 से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. 5/2013, फा. सं. 11/6/2012-प्रशा.--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 22) की धारा 5(1) और धारा 19(1) के तहत जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/स्कंधों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों की समेकित सूची निम्नानुसार है :--

क्रम सं.	नियुक्त किए गए सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम	अनुभाग/डेस्क का नाम/कार्य	नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4
	(सर्वश्री/सुश्री)		(सर्वश्री/सुश्री)
1.	एल पी. शर्मा, अवर सचिव (प्रशा.)	प्रशासन अनुभाग एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. सेल	
2.	अरुण कुमार, अवर सचिव (समन्वय)	समन्वय अनुभाग	खाटचिन लांगेल, उप-सचिव (समन्वय एवं प्रशासन)
3.	आर. के. ओझा, अवर सचिव (संसद)	संसद	राम स्वरूप, निदेशक ((स्था.-III एवं संसद), एफबीपी के स्थापना संबंधी मामलों को छोड़कर
4.	जितेन्द्र चड्ढा, अवर सचिव स्था.-III	स्थापना-III अनुभाग	
5.	अशोक कुमार गुप्ता, अवर सचिव (आई डी)	अवसंरचना विकास	श्रीकांत पांडा, निदेशक (सतर्कता एवं स्था.) एफबीपी के स्थापना मामलों सहित
6.	नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव (स्था.-I)	स्थापना-I	
7.	एस. के. दहिया, अवर सचिव (सतर्कता)	सतर्कता अनुभाग	
8.	विनीत अब्राहम, अवर सचिव (सीजीडब्ल्यूबी)	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	प्रदीप कुमार, उप सचिव (जीडब्ल्यू स्था. एवं सा. प्र.)
क.	राजेन्द्र कुमार ओझा, अवर सचिव (सा. प्र.)	सामान्य प्रशासन और सीआर अनुभाग	
9.	शशि पाल, अवर सचिव (पीएसयू एवं पीपीपी)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अनुभाग और पीपीपी प्रकोष्ठ	
10.	नन्दन एन., अवर सचिव (भूमि जल)	भूजल जल डेस्क	निधि त्रिपाठी, उप सचिव (भूमि जल एवं ई गवर्नेंस)
ख.	अशोक कुमार गुप्ता, अवर सचिव (ई-गवर्नेंस)	ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ	
11.	वी. के. बालयान, अवर सचिव (ईए एवं डब्ल्यूएस)	विदेश प्रशिक्षण एवं द्विपक्षीय मुद्दों और आंतरिक कार्य अध्ययन एकक समेत बाह्य सहायता डेस्क	एम. आर. जोगेश, उप सचिव (ईए एवं डब्ल्यूएस)

1	2	3	4
12.	नागेन्द्र कुमार-II, अनुभाग अधिकारी (जल गुणवत्ता)	जल गुणवत्ता मुद्दे	रविन्द्र सिंह, निदेशक (जल गुणवत्ता)
ग.	शशि पाल, अवर सचिव (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रकोष्ठ	अशोक गुप्ता, निदेशक (स्था.-II एवं आईईसी)
13.	एस. के. कटरिया, अवर सचिव (स्था.-II)	स्थापना-II अनुभाग	
14.	कर्मबीर सिंह, उप-निदेशक (रा.भा.)	राजभाषा अनुभाग	रमेशबाबू अणियेरी, निदेशक (रा.भा.)
15.	अवनीश कांत, वरिष्ठ जल वैज्ञानिक	ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी के जलविज्ञानी परियोजना मामले	अनुज कंवल, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बी एवं बी)
16.	बी. एल. मीणा, अवर सचिव (बी एवं बी)	जलविज्ञानी परियोजना के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एवं बराक स्कंध के मामले	
17.	समीर कुमार झा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, (गंगा)	गंगा स्कंध	एन. के. माथुर, आयुक्त (गंगा)
18.	रविश अली, अवर सचिव (पीपी)	नीति एवं योजना अनुभाग	एम. के. सिन्हा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीपी)
19.	अजय कुमार, उप-सचिव (बी एम)	एनसीए, एनडब्ल्यूए, बीसीबी, बीआरबी, एसएससीएसी, तुंगभद्रा बोर्ड से संबंधित मामले और एनडब्ल्यूडीए के स्थापना संबंधी मामले	
20.	जानी राम बोरो, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एसपीआर)	राज्य परियोजना स्कंध	जी. एस. झा, आयुक्त (एसपीआर)
21.	असित चतुर्वेदी, उपायुक्त (बीएम)	नदी बेसिन प्रबंधन, यूपी, बिहार, एमपी पुनर्गठन अधिनियम, अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम और अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिकरण	एस. के. गंगवार, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम)
22.	अनन्त राम, अनुभाग अधिकारी (परियोजना)	परियोजना अनुभाग	टी. डी. शर्मा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीआर)
23.	अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता (एमआई)	लघु सिंचाई	एस. एल. जैन, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एमआई)
24.	अशोक कौशिक, अवर सचिव	जल निकाय	
25.	एस. पी. अब्राहम, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (सिंधु)	सिंधु स्कंध	जी. अरंगनाथन, आयुक्त (सिंधु)
26.	ममता सक्सेना, डीडीजी (एमआई सांख्यिकी)	लघु सिंचाई सांख्यिकी	सुधा मिड्डा, अपर महानिदेशक
27.	विजय श्रीवास्तव, अवर सचिव (वित्त)	वित्त स्कंध-वित्त डेस्क और बजट अनुभाग	एस. के. ठाकुर, निदेशक (वित्त)
28.	रामेश्वर प्रसाद, उप लेखा नियंत्रक	प्रधान लेखा कार्यालय एवं रोकड़ अनुभाग संबंधी मामले	
29.	बिश्वनाथ दास, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफबीपी)	वेतन एवं लेखा कार्यालय संबंधी मामले	
30.	डी. डी. गायकवाड़, वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीडब्ल्यूपीआरएस)	वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीडब्ल्यूपीआरएस) संबंधी मामले	आलोक रंजन, लेखा नियंत्रक

1	2	3	4
31.	डी. पी. शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी)	वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीजीडब्ल्यूबी) संबंधी मामले	
32.	प्रताप सिंह, वेतन एवं लेखाधिकारी	वेतन एवं लेखा अधिकारी (सीडब्ल्यूसी) संबंधी मामले	
33.	विजय पाल, वेतन एवं लेखाधिकारी	वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीएसएमआरएस) संबंधी मामले	

टिप्पणी :-- यदि कोई सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी स्थानांतरण/सेवा निवृत्ति/किसी अन्य कारणों की वजह से बदल जाता है तथा वर्तमान सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के स्थान पर कोई नया अधिकारी कार्यभार ग्रहण करता है तो वह सौंपे गए कार्य हेतु स्वतः ही सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी माना जाएगा। यदि कोई सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी छुट्टी पर/प्रशिक्षण पर जाता है, तो संबंधित संपर्क अधिकारी अथवा वह अधिकारी, जिसे संबंधित प्रभाग/शाखा अधिकारी के पद का कार्यभार सौंपा गया है, उसे संबंधित कार्य के लिए स्वतः ही सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी माना जाएगा।

खाटचिन लांगेल, उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जनवरी 2013

सं. 24/2013 फा. सं. ए-23020/2/2012-प्रशा.-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का. ज्ञा. सं. 5/11/2011-सीएस. I (यू) के अनुसरण में वर्तमान में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों (अवर सचिव) को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) की चयन सूची में शामिल किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री)	सीएसएल सं.	वर्तमान कार्यालय	अवर सचिव की चयन सूची में शामिल किए जाने का वर्ष
1.	रेणु अरोड़ा	6189	मुख्य सचिवालय	2009
2.	सुदर्शन लाल शाह	6192	मुख्य सचिवालय	2009
3.	एस. नागनाथन	6352	मुख्य सचिवालय	2009
4.	एस. एस. बेदी	6411	मुख्य सचिवालय	2009
5.	शिवेन्द्र चुतर्वेदी	6467	मुख्य सचिवालय	2009
6.	नविल कपूर	6468	मुख्य सचिवालय	2009
7.	अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	6538	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	2010
8.	माला रंगराजन	6595	प्रतिनियुक्ति आधार पर वर्तमान में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में तैनात	2010
9.	मनमीत कौर	6779	मुख्य सचिवालय	2010
10.	शिव दास सरकार	6780	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय	2010

2. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिकारियों को संबंधित चयन सूची वर्ष के लिए अवर सचिव के ग्रेड में शामिल किया जाना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त का. ज्ञा. में यथा निर्धारित शर्तों के अधीन है।

शैलेश गौतम, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2013

सं. ए-32015/1/2012-प्रशा.-III--सक्षम प्राधिकारी, श्रीमती गुरप्यारी, अन्वेषक ग्रेड-II को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में वेतन बैंड 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन 4,600/- रु. में आर्थिक अधिकारी (ग्रुप 'बी'/राजपत्रित) के रूप में दिनांक 06.02.2013 (पूर्वा.) से नियुक्त करते हैं।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 7th March 2013

No. RS.3/1(1)/2013/19-Perl.—Shri Dinesh Singh, who was earlier appointed to officiate as Deputy Director in the Rajya Sabha Secretariat on ad-hoc basis vide notification No. RS.3/1(1)/2012/20-Perl. dated 20th March, 2012, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 06th March, 2013 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 14th March 2013

No. 4/1-PU/2012—Dr. Janardhan Waghmare, Member of Rajya Sabha has been elected to serve as Member of the Committee on Public Undertakings (2012-13) with effect from 11th March 2013 for the unexpired portion of the term of the Committee vice Shri Tariq Anwar who ceased to be a Member of the Committee on his appointment as Minister of State in the Union Council of Ministers.

P. C. KOUL, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 13th March 2013

No. A-12025/27/2012-Admn-I—The President is pleased to appoint Dr. Albel Kachhap, a regular Deputy Adviser (Social Planning) of Planning Commission as Joint Adviser (Industrial Economics/Management) in the Planning Commission in Pay Band 4: Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 01.03.2013 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on Dr. Kachhap any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by him on ad-hoc basis in the grade of Joint Adviser would count neither for the purpose of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. A-12025/27/2012-Adm.I—Consequent upon his repatriation from Competition Commission of India w.e.f. 28.02.2013 (AN), Dr. Albel Kachhap has joined Planning Commission in his substantive post of Deputy Adviser (Social Planning) w.e.f. the forenoon of 01.03.2013 in PB: 3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/-.

G. RAJEEV, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 6th March 2013

No. A-31018/1/2009-Ad.I—Consequent upon inclusion of officers in the Select Lists of Grade-I of CSS (Under Secretary) for the years 2009 and 2010 conveyed by the DoPT vide their OM No. 5/11/2011-CS.I(U) dated 26th November, 2012, the following officers are appointed to Grade-I of CSS (Under Secretary) against select lists as detailed below :—

Sl. No.	Name and Designation	CSL No.	CSL Year
1	Shri P. P. Saha, US	6323	2009
2	Ms. Shakun Pardasani, US	6397	2009
3	Shri D. K. Sharma, US	6534	2010
4	Shri Sunder Singh, US	6806	2010
5	Shri Chandra Mohan Negi, US	6807	2010

K. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 4th March 2013

No. A-32014/5/2010-Admn.IV(LA) Vol.II—Consequent upon inclusion in the Select List for the year 2010 of Private Secretary of CSSS under zoning scheme vide Department of Personnel & Training O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17.07.2012, the President is pleased to appoint following regular Personal Assistants (working as ad-hoc PS) as Private Secretary on regular basis in CSSS cadre of this Department in the Pay Band PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	CSL No.	Cadre presently working	Date of joining this Deptt.
1.	Shri B. M. M. Das	238	Information & Broadcasting (Prasar Bharati)	18.01.2013
2.	Shri P. R. Ramanathan	605	Commerce	23.01.2013 (AN)

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 18th March 2013

No. A-45012/1/2012-Admn.III(LA)(i)—The Central Government is pleased to appoint Justice Shri S. N. Kapoor, retired Judge of Delhi High Court as full-time Member of the 20th Law Commission of India with effect from the forenoon

of 15th March, 2013 and upto 31st August, 2015 i.e. till the end of the term of the 20th Law Commission of India.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-45012/1/2012-Admn.III (LA)(ii)—The Central Government is pleased to appoint the following persons as full-time and part-time Members of the 20th Law Commission of India with effect from the date they assume charge and upto 31st August, 2015 i.e. till the end of the terms of the 20th Law Commission of India :—

Full-time Member :

1. Prof. (Dr.) Mool Chand Sharma
Vice Chancellor, Central University of Haryana.

Part-time Members :

1. Prof. (Dr.) Yogesh Tyagi
Dean & Professor of Law,
South Asian University, New Delhi.
2. Shri R. Venkataramani
Senior Advocate, Supreme Court of India.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th March 2013

No. I-18011/02/2013-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Shemushi, IPS (AP : 2008) in the Indian Police Service, with effect from 01.09.2012.

ARVIND GAUR, Section Officer (IPS-IV)

New Delhi, the 15th March 2013

No. I-14011/04/2012-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the Union Public Service Commission has on 25.02.2013, approved the year-wise Select Lists of the years 2010 and 2011 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 17.12.2012, containing the names of the following State Police Service Officers of Chhattisgarh, towards filling up 10 and 2 total 12 substantive vacancies in the Chhattisgarh Cadre of Indian Police Service:—

Select List 2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	S. S. Sori	10.02.1959
2.	T. R. Painkra	23.03.1961

1	2	3
	(S/Shri)	
3.	D. L. Manhar	25.05.1959
4.	R. S. Nayak	25.04.1960
5.	G. S. Darro	24.05.1960
6.	Narendra Khare	01.08.1956
7.	S. C. Dwivedi	13.04.1965
8.	J. S. Vatti	22.01.1958
9.	A. R. Korram	23.01.1960
10.	R. P. Sai	07.10.1963

Select List 2011

	(S/Shri)	
1.	Sanjeev Shukla	08.01.1967
2.	Hetram Manhar	09.02.1961

2. The aforesaid Select Lists are subject to the outcome of WP No. 2133/2004 filed by Shri A. P. Srivastava in the Hon'ble High Court, Bilaspur, Chhattisgarh.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/04/2012-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of the Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Chhattisgarh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Chhattisgarh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List 2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	S. S. Sori	10.02.1959
2.	T. R. Painkra	23.03.1961
3.	D. L. Manhar	25.05.1959
4.	R. S. Nayak	25.04.1960
5.	G. S. Darro	24.05.1960
6.	Narendra Khare	01.08.1956
7.	S. C. Dwivedi	13.04.1965
8.	J. S. Vatti	22.01.1958
9.	A. R. Korram	23.01.1960
10.	R. P. Sai	07.10.1963

Select List 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Sanjeev Shukla	08.01.1967
2.	Hetram Manhar	09.02.1961

2. The aforesaid appointments are subject to the outcome of WP No. 2133/2004 filed by Shri A. P. Srivastava in the Hon'ble High Court, Bilaspur, Chhattisgarh.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 6th February 2013

No. 12/94/2012-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in Select List for the year 2010 of officers of Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Service vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 5/11/2011-CS.I(U) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Debashis Dey, Under Secretary of CSS (CSL No. 6792) working in the Ministry of Development of North Eastern Region to Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis with effect from 1st July, 2010.

2. The appointment of above mentioned officer would be deemed to have been made effective with effect from 1st July, 2010 for the purpose of approved service.

3. The appointment shall be subject to final outcome in O. A. No. 611/2012 titled "P. S. Bhandari & Ors. Vs. UoI & Ors." In terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.02.2012, and any other order by any competent court in any of the connected matters.

ROHTASH SINGH, Director

New Delhi, the 6th February 2013

No. 12/94/2012-Estt.—Consequent upon inclusion of their names in Select List for the year 2009 of officers of Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Service vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 5/11/2011-CS.I(U) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint following ad-hoc, Under Secretaries of CSS, working in the Ministry of Development of North Eastern Region to Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis with effect from 1st July, 2009:—

Sl. No.	Name	CSL No.
1.	Shri Bimal Kumar	6138
2.	Shri D. Bandopadhyay	6317

2. The appointment of above mentioned officers would be deemed to have been made effective with effect from 1st July, 2009 for the purpose of approved service.

3. The appointment shall be subject to final outcome in O. A. No. 611/2012 titled "P. S. Bhandari & Ors. Vs. UoI & Ors." In terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.02.2012, and any other order by any competent court in any of the connected matters.

DEBASHIS DEY, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 7th March 2013

No. 14015/15/2012-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Manipur containing the following names prepared on 26th October 2012 under Regulation 5(5) and approved on 17.01.2013, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Joint Manipur-Tripura Cadre (Manipur Segment) of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government :—

Select List of 2011 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Smt. Kholia Lorho (ST)	22.05.1960
2.	H. Rupachandra Singh (SC)	31.12.1959
3.	Ningam Chamroy (ST)	22.02.1958
4.	L. Nabakishwar Singh	01.02.1958

2. The above Select List is subject to the outcome of Writ Appeal No. 494/2002 arising out of Civil Rule No. 201/1997 filed by Sh. M. Lakshmikumhar Singh & Ors. before the Hon'ble Gauhati High Court.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/15/2012-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Manipur to the Indian Administrative Service against the

vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2011, on probation until further orders and to allocate them to the Joint Manipur-Tripura Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2011 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

Sl. No.	Name
(S/Shri)	
1.	Smt. Kholia Lorho (ST)
2.	H. Rupachandra Singh (SC)
3.	Ningam Chamroy (ST)
4.	L. Nabakishwar Singh

2. The above appointments are subject to the outcome of Writ Appeal No. 494/2002 arising out of Civil Rule No. 201/1997 filed by Sh. M. Lakshmikumar Singh & Ors. before the Hon'ble Gauhati High Court.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 8th March, 2013

No. A.32013/2/2013-Ad.I—Consequent upon her transfer from Ministry of Health and Family Welfare to this Department under Rotational Transfer Policy of CSS officers vide this Department's Order No. 4/2/2013-CS.I(D) dated 29th January, 2013, the President is pleased to appoint Ms. Gayatri Mishra as Director in the Department of Personnel & Training in the Pay Band PB-4 (Rs. 37,400—67,000/- + G. P. Rs. 8,700/-) with effect from the forenoon of 1st March, 2013 and until further orders.

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

The 15th March 2013

No. A.32013/1/2013-Ad.I—Consequent upon his selection by the Appointments Committee of the Cabinet for appointment as Additional Secretary vide EO Division's Order No. 6/13/2013-EO(SM.I) dated 1st March 2013, the President is pleased to appoint Shri Jai Priye Prakash, IAS (AM : 1982) as Additional Secretary in Department of Personnel and Training in the Pay Band HAG + of Rs. 67,000—79,000/- with effect from forenoon of 11th March, 2013.

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

New Delhi, the 5th March 2013

No. 11013/04/2012-Admn.I (Part-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 6/8/2013-

EO(SM.I) dated 19th February, 2013, Shri Pramod Kumar Tiwari, Joint Secretary (ARC) in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances has assumed the additional charge of the newly created post of Joint Secretary in the Department of Pension & Pensioners' Welfare w.e.f. 20.02.2013 (FN).

D. K. SOLANKI, Under Secy.

The 6th March 2013

No. 19011/02/2013-Admn.I—In pursuance of Department of Official Language's Office Order No. 5/3/2012-O. L.(Service) dated 28.01.2013 and upon relieving by Department of Central Electricity Authority vide their Office Order No. 1/2/2012-Adm.III (CEA) dated 28.02.2013 (A. N.), Kumari Pushpalata Kumari has assumed the charge of the post of Assistant Director (OL) in Department of Pension and Pensioners' Welfare on regular basis with effect from the forenoon of 1st March, 2013.

D. K. SOLANKI, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th February 2013

No. Q/PF/578/11/2009—On attaining the age of superannuation, Shri V. R. Goel, Deputy Director (OL), retired from Ministry of External Affairs on the afternoon of January 31, 2013.

ANOOP DHINGRA, Under Secy.

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 7th March 2013

No. DIII/460/CF-14/2008—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Abhishek Poddar as Honorary Consul of the Republic of Poland in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Abhishek Poddar comprises the State of Karnataka with the seat in Bengaluru.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 11th March 2013

No. A-12011/11/2012-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri R. Thyagarajan, a regular Private Secretary of CSSS of Finance Cadre as Private Secretary to the Adviser to Finance Minister in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of 31.12.2012.

2. The appointment of Shri R. Thyagarajan will be on co-terminus/deputation basis with the tenure of the Adviser to Finance Minister or until further orders, whichever is earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 13th March 2013

No. A-22011/1/2013-Ad.IA—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Shyam (IES : 99) as Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 01.03.2013 (FN).

IPSITA MITRA, Under Secy.

The 15th March 2013

No. A-22011/1/2013-Ad.IA—The President is pleased to appoint Shri Santanu Mitra (IES : 99) as Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 25.02.2013 (FN).

IPSITA MITRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 21st February 2013

No. 7/6/2012-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri V. N. Lothey Patil as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-III, Mumbai, for a period of five years with effect from 20.02.2013 (F. N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 8th March 2013

No. 2013 [F. No. 2/21/2011-JE (Pt.)]—The President is pleased to appoint Shri Arijit Banerjee, IFS (RJ : 91) as Secretary, National Jute Board, Kolkata on Central Deputation w.e.f. the afternoon of 8th March 2013 for a period upto 17.02.2015.

SUMINDER KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 1st March 2013

No. A-38011/5/2012-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Kanta Arora, Deputy Director (Accounts) stands retired from the service of the Government of India with effect from 28.02.2013.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi, the 28th February 2013

No. MoES/11/08/2008-Estt.—Consequent upon extension in Central Deputation tenure for a period of three months as conveyed vide DoPT's OM No. 1/3/2007-EO(MM-I) dated 21.02.2013, the Central Deputation tenure of Dr. Vasudha Gupta, IIS (89), Director, Ministry of Earth Sciences is extended for a period of three months beyond 25.02.2013 and upto 25.05.2013.

KAILASH CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 1st March 2013

No. A-20012/16/1990-P.II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Shradha Sharma, Section Officer in the Ministry of Environment and Forests has retired from Government Service from the afternoon of 28th February, 2013.

M. K. RAI, Under Secy.

The 4th March 2013

No. A-12012/5/2004-P.II.—The President is pleased to appoint Shri Chandan Singh, a Director of Central Secretariat Service, as Joint Secretary (in situ) in the Ministry of Environment and Forests in SAG Grade [i.e. PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/-] with effect from the forenoon of 1st March, 2013 in pursuance of the approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) for his empanelment for holding the post of Joint Secretary or equivalent under the Central Staffing Scheme conveyed vide Department of Personnel & Training Office Order No. 21/3/2013-CS.I(D) dated 27th February, 2013.

M. K. RAI, Under Secy.

No. A-12012/5/2004-P.II.—Consequent upon his empanelment for holding the post of Joint Secretary or equivalent under the Central Staffing Scheme vide Department of Personnel & Training Office Order No. 21/3/2013-CS.I(D) dated 27th February, 2013, the President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, a Director of Central Secretariat Services, as Joint Secretary (in situ) in the Ministry of Environment and Forests in SAG Grade [i.e. PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/-] with effect from the forenoon of 27th February, 2013.

M. K. RAI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 13th March 2013

No. A-12025/167/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Mahesh Madhukarrao Choudhary to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21.01.2010 until further orders. Dr. Mahesh Madhukarrao Choudhary is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai. He will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 19th March 2013

No. A-12025/275/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shilpi Shradha Minz in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 13th April, 2007 until further orders. Dr. Shilpi Shradha Minz is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

No. A-12025/8/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Megha Jain to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 05th September, 2012 until further orders. Dr. Megha Jain is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Megha Jain shall be on probation for two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th March 2013

No. A-19014/13/05-E.I—Consequent upon her promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on adhoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/02/2013-CS.I(D) dated 29th January, 2013, Smt. Valsamma K. Daniel, Grade-I (Under Secretary) of CSS is hereby appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on adhoc basis with effect from 25.02.2013 (FN), initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment of Smt. Valsamma K. Daniel is subject to the various Court Cases/terms & conditions stipulated against point 2 of DoPT's order dt. 29.01.2013, as referred above.

ANIL KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

New Delhi, the 15th February 2013

No. V-25011/156/07-HR-(Part File)—In pursuance of Government of India, Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training Order No. 5/03/2013-EO(S. M.II) dated 13.02.2013, the appointment of Dr. V. M. Katoch, Director General, Indian Council of Medical Research and Secretary, D/o Health Research, M/o Health and Family Welfare, is extended by two years beyond 28th February, 2013, the date of his superannuation.

S. K. RAO, Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 7th November 2012

No. A-19011/12/2012-Estt.—Consequent on their promotion to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Services (CSS) on ad-hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, and posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training order No. 5/9/2012-CS.I (U) dated 30th October, 2012, the following regular Section Officers of the Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Culture have been appointed as Under Secretaries of CSS in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 30th October, 2012.

1. Shri O. P. Chhillar
2. Shri R. P. Bahuguna

B. L. MEENA, Under Secy.

The 12th December 2011

No. A-19011/14/2012-Estt.—Shri Gurvinder Singh Guleria, Security Officer, Rajya Sabha Secretariat, has assumed the charge of Additional Private Secretary in the personal staff of Minister of Culture (Smt. Chandresh Kumari Katoch) in the Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay or Rs. 5,400/- alongwith deputation allowance as admissible, on co-terminus basis with effect from the forenoon of 20th November, 2012.

B. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 26th February 2013

No. PF-635/Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri Jayanta Kumar Roy, Member (Technology), Telecom Commission and ex-officio Secretary

to the Govt. of India shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2013.

NEHA SINGH, Under Secy.

No. PF-604/Admn.I—On attaining the age of superannuation, Smt. Shyama Kutty, Deputy Secretary, Department of Telecommunications shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 28.02.2013.

NEHA SINGH, Under Secy.

The 28th February 2013

No. PF-566/Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri L. N. Anchal, Director, Department of Telecommunications shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 28.02.2013.

NEHA SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 4th March 2013

No. 6120/NIC/2013-Adm.-II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Akash Sharda, (Emp. Code No. 6120), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre-Headquarters, New Delhi, with effect from the afternoon of 04.03.2013 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Director (Adm.-II)

The 11th March 2013

No. 4941/NIC/2012-Adm.-II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Suraj Dev Sharma, (Emp. Code No. 4941), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB/D. I. O., National Informatics Centre, Fatehgarh Sahib, Punjab, with effect from the afternoon of 02.04.2001 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Director (Adm.-II)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 15th March 2013

No. ERB-I/2008/2/11—Shri Santosh Sinha, SG/IRSME, Director, Mechanical Engineering (Workshops), Railway Board on his promotion to Senior Administrative Grade has been appointed as Executive Director, Mechanical Engineering (Production Units), Railway Board with effect from the afternoon of 28.02.2013.

H. K. JAGGI, Secy./
(Railway Board)

New Delhi, the 5th March 2013

No. 2006/E(GR)/I/6/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Electrical Engineering with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of joining
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Ratnesh Kumar Dwivedi (Provisional)	18.12.2006
2.	Shashikant Dwivedi (Provisional)	11.12.2006
3.	Gopal Singh	14.12.2006
4.	B. Srinivasa Rao	11.12.2006
5.	Sugind Surendran (Provisional)	11.12.2006
6.	Joyanta Chakraborty	11.12.2006
7.	Subhra Sankha Mukherjee	11.12.2006
8.	Santosh Kumar	11.12.2006
9.	Swadesh Rai	11.12.2006
10.	Saket Chand Srivastava	11.12.2006
11.	Awadhesh Kumar	11.12.2006
12.	Nitin Verma	11.12.2006
13.	Posu Babu Alli	11.12.2006
14.	Santosh Kumar Rajula	11.12.2006
15.	Arun Kumar Panwar	11.12.2006
16.	Deepak Kumar Gupta	11.12.2006
17.	Aindlawar Sanjeeva Rao	11.12.2006
18.	Jyoti Bhaskar	15.12.2006
19.	Rajneesh Kumar Singh	11.12.2006
20.	Rajpal Meena	20.12.2006

MAMTA KANDWAL, Jt. Director Estt. (GR)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 8th March 2013

No. 3/2013 (F. No. A-35018/1/2012-Adm.I)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 70 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint Smt. Neerja Mathur, Chief Engineer, Central Electricity Authority, to the post of Member (Grid Operation & Distribution) in the Central Electricity Authority on deputation basis in the scale of pay of Rs. 67,000—79,000/- with ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, for a period of 05 (five) years with effect from 01.03.2013 or till her superannuation, or until further orders, whichever is the earliest.

P. P. BOSE, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd January 2013

No. 05/2013 (F. No. 11/6/2012-Admn.)—In terms of Section-5(1) and Section-19 (1) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the following is the consolidated list of officers of the Ministry of Water Resources who are designated as Central Public Information Officers/Appellate Authorities in the various Sections/Wings of the Ministry of Water Resources :—

Sl. No.	Name & Designation of CPIO appointed	Name of the Section/Desk/Work	Name & Designation of the Appellate Authority appointed
1	2	3	4
	(S/Shri/Smt.)		(S/Shri/Smt.)
1.	L. P. Sharma, Under Secretary (Admn.)	Administration Section & SC/ST/OBC Cell	Khatchin Langel, DS (Coord & Admn)
2.	Arun Kumar, Under Secretary (Coord)	Coordination Section	Khatchin Langel, DS (Coord & Admn)
3.	R. K. Ojha, Under Secretary (Parliament)	Parliament	Ram Swarup, Director (E-III & Parliament) except for establishment matters of FBP
4.	Jeetendar Chadha, Under Secretary (E-III)	Establishment III Section	Ram Swarup, Director (E-III & Parliament) except for establishment matters of FBP
5.	Ashok Kumar Gupta, Under Secretary (ID)	Infrastructure Development	Srikanta Panda, Director (Vigilance & Estt.) including establishment matters of FBP
6.	Narendra Singh, Under Secretary (E-I)	Establishment I Section	Srikanta Panda, Director (Vigilance & Estt.) including establishment matters of FBP
7.	S. K. Dahiya, Under Secretary (Vig)	Vigilance Section	Srikanta Panda, Director (Vigilance & Estt.) including establishment matters of FBP
8.	Vineeth Abraham, Under Secretary (CGWB)	Central Ground Water Board Desk	Pradeep Kumar, Deputy Secretary (GW Estt & GA)
A.	Rajendra Kumar Ojha, Under Secretary (GA)	General Administration & CR Sections	Pradeep Kumar, Deputy Secretary (GW Estt & GA)
9.	Shashi Pal, Secretary (PSU & PPP)	Public Sector Undertakings Section and PPP Cell	Nidhi Tripathy, Deputy Secretary (GW & e-Gov.)
10.	Nandan N., Under Secretary (GW)	Ground Water Desk	Nidhi Tripathy, Deputy Secretary (GW & e-Gov.)
B.	Ashok Kumar Gupta, Under Secretary (e-Gov.)	e-Governance Cell	Nidhi Tripathy, Deputy Secretary (GW & e-Gov.)
11.	V. K. Balayan, Under Secretary (EA & WS)	External Assistance Desks including Foreign Training & Bilateral issues and Internal Work Study Unit	M. R. Jogesh, Deputy Secretary (EA & WS)
12.	Nagendra Kumar-II, Section Officer (Water Quality)	Water Quality Issues	Ravindra Singh, Director (Water Quality)
C.	Shashi Pal, Under Secretary (Information, Education and Communication)	Information, Education and Communication Cell	Ashok Gupta, Director (IEC & E-II)
13.	S. K. Kataria, Under Secretary (E-II)	Establishment-II Section	Ashok Gupta, Director (IEC & E-II)

1	2	3	4
14.	Karam Bir Singh, Deputy Director (OL)	Official Language Section	Ramesh Babu Aniyeri, Director (OL)
15.	Avanish Kanth, Sr. Hydrogeologist	Hydrology Project matters of Brahmaputra & Barak Wing	Anuj Kanwal, Sr. Joint Commissioner (B&B)
16.	B. L. Meena, Under Secretary (B&B)	Matters of Brahmaputra & Barak Wing other than Hydrology Project	Anuj Kanwal, Sr. Joint Commissioner (B&B)
17.	Sameer Kumar Jha, Sr. Joint Commissioner (Ganga)	Ganga Wing	N. K. Mathur, Commissioner (Ganga)
18.	Ravish Ali, Under Secretary (PP)	Policy and Planning Section	M. K. Sinha, Sr. Joint Commissioner (PP)
19.	Ajay Kumar, Under Secretary (BM)	Matters related to NCA, NWA, BCB, BRB, SSCAC, Tungabhadra Board and establishment matters of NWDA	M. K. Sinha, Sr. Joint Commissioner (PP)
20.	Jani Ram Boro, Sr. JC (SPR)	State Projects Wing	G. S. Jha, Commissioner (SPR)
21.	Asit Chaturvedi, Deputy Commissioner (BM)	River Basin Management, Administration of UP, Bihar, MP Reorganisation Act, Inter State Water Disputes Act and Inter State Water Disputes Tribunal	S. K. Gangwar, Sr. JC (BM)
22.	Anant Ram, Section Officer (Projects)	Project Section	T. D. Sharma, Sr. Joint Commissioner (PR)
23.	Anil Kumar, Assistant Engineer (MI)	Minor Irrigation	S. L. Jain, Sr. Joint Commissioner (MI)
24.	Ashok Kaushik, Under Secretary (WB)	Water Bodies	S. L. Jain, Sr. Joint Commissioner (MI)
25.	S. P. Abraham, Sr. Joint Commissioner (Indus)	Indus Wing	G. Aranganathan, Commissioner (Indus)
26.	Mamta Saxena, DDG (MI Stats)	Minor Irrigation Statistics	Sudha Middha, Additional Director General
27.	Vijay Srivastava, Under Secretary (Finance)	Finance Wing-Finance Desks and Budget Section	S. K. Thakur, Director (Finance)
28.	Rameshwar Prasad, Deputy Controller of Accounts	Matters related to Principal Accounts Office and Cash Section	Alok Ranjan, Controller of Accounts
29.	Bishwanath Das, Sr. Accounts Officer (FBP)	Matters related to Pay & Accounts Office (FBP)	Alok Ranjan, Controller of Accounts
30.	D. D. Gaikwad, Sr. Accounts Officer (CWPRS)	Matters related to Pay & Accounts Office (CWPRS)	Alok Ranjan, Controller of Accounts
31.	D. P. Sharma, Sr. Accounts Officer (CGWB)	Matters related to Pay & Accounts Office (CGWB)	Alok Ranjan, Controller of Accounts
32.	Pratap Singh Pay & Accounts Officer	Matters related to Pay & Accounts Office (CWC)	Alok Ranjan, Controller of Accounts
33.	Vijay Pal, Pay & Accounts Officer	Matters related to Pay & Accounts Office (CSMRS)	Alok Ranjan, Controller of Accounts

Note : In case work of any CPIO/Appellate Authority is changed due to transfer/retirement/any other reasons and a new official joins in place of the existing CPIO/Appellate Authority, he/she would automatically be the CPIO/Appellate Authority of the allotted work. In case any CPIO/Appellate Authority proceeds on leave/training, the concerned Link Officer or the officer who is entrusted with the charge of the post of the concerned Division/Branch Head would automatically be the CPIO/Appellate Authority of the allotted work.

KHATCHIN LANGEL, Dy. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-110001, the 14th January 2013

No. 24/2013 (F.No. A-23020/2/2012-Admn.-II)—In pursuance of DoPT's O.M. No. 5/11/2011-CS-I(U) dated 26/11/2012, the following Grade-I officers (Under Secretary) of Central Secretariat Service cadre of this Ministry, presently working on ad hoc basis, are included in the Select Lists of Grade-I officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service as per the details given below :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Present Office	Included in the Select List of Under Secretary for the Year
1.	Renu Arora	6189	Main Sectt.	2009
2.	Sudarshan Lal Shah	6192	Main Sectt.	2009
3.	S. Naganathan	6352	Main Sectt.	2009
4.	S. S. Bedi	6411	Main Sectt.	2009
5.	Shivendra Chaturvedi	6467	Main Sectt.	2009
6.	Navil Kapur	6468	Main Sectt.	2009
7.	Arvind Kumar Shrivastwa	6538	DAVP	2010
8.	Mala Rangarajan	6595	Presently posted in NOIDA SEZ on deputation basis	2010
9.	Manmeet Kaur	6779	Main Sectt.	2010
10.	Shib Das Sarkar	6780	O/o RNI	2010

2. Further, inclusion of above mentioned officers in the grade of Under Secretary for respective Select List year is subject to the conditions as laid down in DoPT's O.M. ibid.

SHAILESH GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 8th February 2013

No. A-32015/1/2012-Admn.-III—The Competent Authority is pleased to appoint Smt. Gurpyari, Investigator Grade-II, as Economic Officer (Group 'B' Gazetted), Ministry of Labour & Employment in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,600/- with effect from 06.02.2013 (FN).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013